



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3488]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2019/कार्तिक 3, 1941

No. 3488]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2019/KARTIKA 3, 1941

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3855(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 3 जुलाई, 2019 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2318(अ), तारीख 28 जून, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, "राजस्थान पत्रिका" और "दैनिक भास्कर" (अजमेर हिन्दी संस्करण) में तारीख 19 जुलाई, 2019 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हैक्टर में	भूमि धारक/रुचिकर व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अजमेर	पीसागन	मकरेडा	2690	असिंचित (कृषि)	बारानी 3	0.0288	कैलाश पुत्र प्रभु हि. 1/6 जाति जाट सा. देह खातेदार, कृष्णा पुत्री महिपाल हि. 1/24 जाति जाट सा.देह खातेदार, गरिमा पुत्री महिपाल हि. 1/24 जाति जाट सा. देह खातेदार, तेजराम पुत्र प्रभु हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार, मीना पुत्री हाफू हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार, राकेश पुत्र महिपाल हि. 1/24 जाति जाट सा.देह खातेदार, रामप्यारी पत्नि प्रभु हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार, संतोष पत्नि महिपाल हि. 1/24 जाति जाट सा.देह खातेदार, सूरजकरण पुत्र प्रभु हि. 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार
2	अजमेर	पीसागन	मकरेडा	2691	असिंचित (कृषि)	बारानी 3	0.0384	जियादेवी पुत्री भंवरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/12 (पूर्ण खाता) SBI शाखा मांगलियावास, धन्ना पुत्र किषना हि. 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) BOB शाखा सराधना, रिद्धकरण पुत्र भंवरलाल हि. 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) SBI शाखा मांगलियावास, सन्तोषदेवी पुत्री भंवरलाल हि. 1/12 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/12 (पूर्ण खाता) SBI शाखा मांगलियावास

[फा. सं. 2019/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/1064]

अजय शर्मा, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2019

S.O. 3855(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 2318(E), dated the 28th June, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd July, 2019 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of the Special Railways Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district Ajmer, in the State of Rajasthan;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, "Rajasthan Patrika" and "Dainik Bhaskar" (Ajmer Hindi Edition) dated the 19th July, 2019 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objection has been received by Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor, in the district Ajmer in the State of Rajasthan.

Sl. No.	District	Tehsil	Name of Village	Khasara Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of the Land Owner/Interested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ajmer	Pisangan	Makreda	2690	Non-Irrigated (Agriculture)	Barani 3	0.0288	Kailash s/o Prabhu Hissa 1/6 caste Jat Sa.deh khatedar, Krishana d/o Mahipal Hissa 1/24 caste Jat Sa.deh khatedar, Garima d/o Mahipal Hissa 1/24 caste Jat Sa.deh khatedar, Tejram s/o Prabhu Hissa 1/6 caste Jat Sa.deh khatedar, Mina d/o Hafu Hissa 1/6 caste Jat Sa.deh khatedar, Rakesh s/o Mahipal Hissa 1/24 caste Jat Sa.deh khatedar, Rampyari w/o Prabhu Hissa 1/6 caste Jat Sa.deh khatedar, Santosh w/o Mahipal Hissa 1/24 caste Jat Sa.deh khatedar, Surajkaran s/o Prabhu Hissa 1/6 caste Jat Sa.deh khatedar.
2	Ajmer	Pisangan	Makreda	2691	Non-Irrigated (Agriculture)	Barani 3	0.0384	Jiyadevi d/o Bhanwarlal Hissa 1/12 caste Jat Sa.deh khatedar Mortgaged Hissa 1/12 (All Khata) SBI Branch Mangliyawas, Dhanna s/o Kishana Hissa 1/2 caste Jat Sa.deh khatedar Mortgaged Hissa 1/2 (All Khata) BOB Branch Saradhana, Ridhkaran s/o Bhanwarlal Hissa 1/3 caste Jat Sa.deh khatedar Mortgaged Hissa 1/3 (All Khata) SBI Branch Mangliyawas, Santoshdevi d/o Bhanwarlal Hissa 1/12 caste Jat Sa.deh khatedar Mortgaged Hissa 1/12 (All Khata) SBI Branch Mangliyawas.

[F. No. 2019/LML-II/12/1/WC/1064]

AJAY SHARMA, Executive Director (Land and Amenities-1)